

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मार्च 30—अप्रैल 5, 2008, शनिवार/चैत्र 10—चैत्र 16, 1930

No. 10] NEW DELHI, MARCH 30—APRIL 5, 2008, SATURDAY/CHAITRA 10—CHAITRA 16, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह पुस्तक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये आदेश और अधिसूचनाएँ
Orders and Notifications Issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2008

आ. अ. 31.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि केरल विधान सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचन, 2006 जो नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों से हुआ है, स्तंभ (3) में उनके नाम के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले व्यर्थी, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथा उल्लिखित अपने निर्वाचन व्यर्थों का लेखा सौक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और तद्विना बनाए गए नियमों के द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों में से प्रत्येक को सम्यक् सूचना देने के बाद भी उक्त असफलता के लिए किसी प्रकार का कोई कारण या न्यायोचित्व प्रस्तुत नहीं किया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्व नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा, निम्न सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निराहित घोषित करता है।

सारणी

क्रम संख्या	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निराईता के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	16- उत्तर बाघनाद	श्री पी. रामचन्द्रन, आरियांगोद, वरुम्मालक्काडावु, अन्नुकुनु ।	कोई लेखा दाखिल नहीं किया गया
2.	16- उत्तर बाघनाद	श्री लिस्से पी. जोसेफ, थानिक्कल (एच), पतलीकुनु पो. ऑ.	-वही-
3.	16- उत्तर बाघनाद	श्री ए. के. बालन, एचिपोयिल हाउस, अलाट्टिल पो. आ. पेरिया	-वही-
4.	29-कालपेट्टा	शायना, सुपुत्री वेत्तायुधन, अटियल वीडु, पुथुपाडी (पो. ऑ.) इंगापुझा, कोझिकोडे, केरल	-वही-
5.	30-सुल्तान की बैटरी	श्री कलाधरण, प्रानवाम, कुप्पाडी पो.ऑ. सुलताना वैधरी	-वही-
6.	30-सुल्तान की बैटरी	श्री ए. सी. वारके, अनिक्काल वीडु, नाडावयल पो. ऑ.	-वही-
7.	32-नीलाम्बुर	श्री ए. सी. टी. युसूफ, स्थान चीरामथोडीका चान्दूर, पो. ऑ. मलाट्टपुरम (जिला)	-वही-
8.	32- नीलाम्बुर	श्री विनोय पट्टाथिल, स्थान -पट्टाथिल पुथेनवीडु, चक्कालाक्कुथ नीलाम्बुर पो. ऑ. मलाट्टपुरम जिला	-वही-
9.	33-मन्नेरी	श्री अशरफ माडाथिल, माडाथिल हाउस, संधि नगर, वनियामवालम	-वही-
10.	33-मन्नेरी	श्री राजीव के. के. हिल व्यू, करुवामब्राम (पो. ऑ.)	-वही-
11.	34 -मलापुरम	अशरफ थाइक्कोडे, सुपुत्र- कुन्हायामु, कोडानगाडम (एच), थाइक्कोडे पश्चिम, पो. ऑ. परिन्थालमन्ना	-वही-
12.	34 -मलापुरम	अब्दुल मजीद, सुपुत्र खादीजा, थाटियल हाउस, पट्टारकाडावु, पो.ऑ. मलापुरम	-वही-
13.	36-तिरुवनवाडी	मोइदीन कोया के. कोस्तानचेरी, तिरुवनवाडी	-वही-
14.	36- तिरुवनवाडी	अबूलेकर उर्फ के. के. अबू फिजिक्कुश हाउस, चेन्नक्कलनाडि, थेन्निप्पलम,	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	37- तानुर	श्री पी. के. मोहम्मदकुटी, सुपुत्र चेंबकुटी पेचुम्कटिल वीडु, तनलुर पो. ऑ.	कोई लेखा राखिल नहीं किया गया
16.	38- तिरुवर	श्रीमती के. सुधा देवी कोल्लिकोट्टु नरमतु कलाम, त्रिम्बलियम पो. ऑ.	-वही-
17.	39- पोन्नानी	श्री बी. के. सुधु, पुन्नथट्टिल (एच) अयन्कलम (पो. ऑ.) धवनूर	-वही-
18.	40- कुट्टीपुरम	श्री अनिल कुमार, सुपुत्र वेलमुथान कलवथ हाउस, इरिन्नालूर, तिनुर-676103	-वही-
19.	40- कुट्टीपुरम	अनु नेदुम्बा, सुपुत्र मरक्कर, नेदुम्बा हाउस, अरिम्पनल पो. ऑ.	-वही-
20.	40- कुट्टीपुरम	श्री सुरेश, सुपुत्र कण्णम कुट्टि चलिल पुरायिल हाउस, ओलावल्लूर -673638	-वही-
21.	40- कुट्टीपुरम	श्री के. पी. ए. जलील, सुपुत्र कुन्दिपारि, कन्दिपाराप्पलेल, वैरन्कोट पो. ऑ.	-वही-
22.	40- कुट्टीपुरम	के. ए. जलील, सुपुत्र मोइदीनकुट्टी, कट्टिल हाउस, पुदुपरम्बा, तानुर	-वही-
23.	40- कुट्टीपुरम	अब्दुल ज़ावर सुपुत्र कोत्तुमोहमीद अराका वीटील वायनापाली पोस्ट ऑफिस	-वही-
24.	42- पेरीनयालमान्ना	अब्दुल हमीद, मन्नेन्नालवीडि हाउस, कुन्नापल्लिल पो. ऑ.	-वही-
25.	42- पेरीनयालमान्ना	उमर मौलवी, कोलोयाडी हाउस, कुन्नापल्लिल पोस्ट ऑफिस	-वही-
26.	52-कोयलमन्नम(अ. ज.)	श्री सी. प्रकाशन सुपुत्र/चामी, तरिकोट्टुकलामवीडु पारुलानवाथानुर	-वही-
27.	127-वरकाला	श्री कुमार आर. रोडविला वीडु, स्त्रीनिवासपुरम	-वही-
28.	127- वरकाला	श्री मो. ओमाना, चक्कल विला वीडु, कल्लामबलाम, पोस्ट ऑफिस	-वही-
29.	127-वरकाला	श्री कहर, राडिला मंजिल, क्षेत्रम विला वीडु पालायम कुन्नु, वरकाला	-वही-
30.	127-वरकाला	श्री राशिधरन, काट्टुविला, मुण्डाविल, वरकाला	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)
31.	128-अद्विगल	चित्राकुमारी जी. एस. अक्काराविला वीडु, कुलूवरम, अद्विगल	कोई लेखा दाखिल नहीं किया गया
32.	128-अद्विगल	श्री शिवू वी. अम्बिका विलासम, काडुवायिल, अद्विगल	-वही-
33.	128-अद्विगल	श्री मोहनचन्दन, राक्काकिमन्दिरम, मन्नायिमूला, काडक्कादूर	-वही-
34.	129- किलीमनूर (अ.जा.)	श्री बाबू टी. अजा भवन, ब्लॉक नं. 34, मन्नाप्पारा, थलिवक्कुल्ली, पो. ऑफिस	-वही-
35.	130-वमानापुरम	श्री अनिल कुमार स्थान-चारुविला पुथेन वीडुवेनकोड, कूनानबेंगा, पोस्ट ऑफिस	-वही-
36.	130-वमानापुरम	एडवोकेट शाइन दिनेश परमेश्वर विलासम, केरल	-वही-
37.	130-वमानापुरम	श्रीमती अरुन्धति, कुरुन्ना पलकायु, केरल	-वही-
38.	131- अरियानाडु	श्री जी. कार्तिकेयन वरक्कला के. आर. भवन, पलयमकुन्ना, वरक्कला	-वही-
39.	131- अरियानाडु	कार्तिकेयन स्थान बिन्दु भवन, मणिकन्देश्वरम्, वल्लियुरकायु	-वही-
40.	131- अरियानाडु	श्री मुरलीधरन नायर, वलियविलकायु वीडु पोथेन्कोडे	-वही-
41.	131- अरियानाडु	रिचर्ड बेनेट चेम्पकस्सेरि मुण्डा, प्लाविलवीडु परसला	-वही-
42.	132-नेदूमानगाड	श्री रवीन्द्रन नायर, 25/337(1257) परियारथु वीडु अरसुपरदु, नेदूमानगाड- पो. आ.	-वही-
43.	133-काजाकुट्टम	श्री शङ्गु पो. चिरायिल वीडु मुण्डक्कल, मुरुक्कम्पुरम	-वही-
44.	134- तिरुवनन्तपुरम (उत्तर)	श्री मोहनन, थिनाविलकायु वीडु पथिरि पल्लि, कुडप्पनकुन्नु -पो. आ. त्रिवेन्द्रम	-वही-
45.	135- तिरुवनन्तपुरम (पश्चिम)	जी. टी. सेबास्तिथन, पल्लिथारा-(6), परुथिप्पल्लि, कुट्टिचल,	-वही-
46.	135- तिरुवनन्तपुरम (पश्चिम)	श्री गिरिश कुमार जी. एस. टी. सी. 27/1359, अप्सरा, तिथियंगलम्/ वन्नियूर, तिरुवनन्तपुरम	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)
47.	136-तिरुवनन्तपुरम(पूर्व)	श्री थायकॉड आर. चन्द्रन, टी. सी. 4/511, मालविका कॉन्जोयम कुलम, कोवलम	कोई लेखा दाखिल नहीं किया गया
48.	136-तिरुवनन्तपुरम(पूर्व)	श्री अट्टुकला विक्रम टी. सी. 22/361/1(1811), अट्टुकला तिरुवनन्तपुरम	-वही-
49.	136-तिरुवनन्तपुरम(पूर्व)	श्री विजयकुमार, मधवी मन्दिरम, टी. सी. 2/1619, गौरीसा पट्टोम, तिरुवनन्तपुरम	-वही-
50.	137-नेमोम	एडवोकेट रोबिनसेन डेविड, कुम्पीविला वीह, अनिथयुर, बलरामपुरम, पोस्ट ऑफिस, तिरुवनन्तपुरम	-वही-
51.	137-नेमोम	श्रीकुमार, निथिन निवास, को. वी. नगर, कुरिस्तुमुथोम, पेयाड, पोस्ट ऑफिस, तिरुवनन्तपुरम	-वही-
52.	138-कोवालम	श्री फिरोजखान पराइक्कल हाउस, पाचाल्लूर	-वही-
53.	138-कोवालम	श्री पानदिथाडोम वलसायन, पुथुवाल पुथेनवीडु वनादिथाडाम, वेल्लायानी, पोस्ट ऑफिस	-वही-
54.	138-कोवालम	रोसमा टी. वालामविलावीडु, पेरिगामाला, कल्लीयूर पोस्ट ऑफिस	-वही-
55.	139-नेयाट्टिनकारा	श्री मोहनकुमार के. आक्रातिविला वीह, बलरामपुरम	-वही-
56.	139-नेयाट्टिनकारा	श्री के. के. परमेस्वरन कुट्टी, वाडकपान्नीलाकम कृष्णा नगर, नेयाट्टिनकारा	-वही-

[सं. 76/केरल-वि.स./2007]

आदेश से,

तपस कुमार, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi the 20th March, 2008

O.N. 31.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the Kerala Legislative Assembly, 2006 held from the Constituency specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder,

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order.

1065 GI/08-2

TABLE

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of the contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	16-North Wayanad	Sh. P. Ramachandran, Iriyangod, Varumalkkadavu, Anchukunnu.	Accounts not lodged at all
2.	-do-	Lissy. P. Joseph, Thanikkal (H), Pallickunnu P.O.	-do-
3.	-do-	Sh. A. K. Balan, Echipoyil House, Alattil P.O., Peria.	-do-
4.	29-Kalpetta	Shyna, D/o Velayudhan, Ayyil Veedu, Puthupadi (P.O.), Inagapuzha, Kozhikode, Kerala.	-do-
5.	30-Sultan's Battery	Sh. Kaladharan, Pranavam, Kuppadil P.O., Sulthana Bathery,	-do-
6.	-do-	Sh. A.C. Varkey, Anickal Veedu, Nadayayal P.O.	-do-
7.	32-Nilambur	Sh. C.T. Yoosuf, At Cheeranthodika, Marakkulamkundu, Wandoor, P.O. Malappuram (Dist)	-do-
8.	-do-	Sh. Binoy Pattathil, At-Pattathil Puthenveedu, Chakkalakkuth, Nilambur P.O. Malappuram (Dist)	-do-
9.	33-Manjeri	Sh. Ashraf Madathil, Madathil House, Santhinagar, Vaniyambalam.	-do-
10.	-do-	Sh. Rajeev K. K. Hill View, Karuvambaram (PO).	-do-
11.	34-Malappuram	Ashraf Thazhekkode, S/o Kunhayamu, Kodangadan (H), Thazhekkode West, P.O. Perinthalmanna.	-do-
12.	-do-	Abdul Majeed, S/o Khadeeja, Thayyil House, Pattarkadavu P.O., Malappuram.	-do-
13.	36-Tirurangadi	Moideen Koya. K., Kollanchery, Tirurangadi.	-do-
14.	-do-	Aboobacker alias K.K. Abu, Kizhikkuth House, Chenakkalangadi, Henhipalam.	-do-
15.	37-Tanur	Sh. P.K. Mohammedkutty, S/o Chekkutty, Pevumkattil, Veedu, Tanalur P.O.	-do-
16.	38-Tirur	Smt. K. Sundha Devi, Kozhikkottu Narmattu Kalam, Trimbiliyam. P.O.	-do-

1	(2)	(3)	(4)
17.	39-Ponnani	Sh. V. K. Suku, At-Punnathattil (H), Ayankalam (P.O.), Thavanoor.	Accounts not lodged at all
18.	40-Kuttippuram	Sh. Anil Kumar, S/o Velayudhan Valavath House, Iringavoor, Tirur-676103.	-do-
19.	-do-	Abu Nedumba, S/o Marakkar, Nedumba House, Arimanal P. O.	-do-
20.	-do-	Sh. Suresh, S/o Kannan Kutty, Chalil Purayil House, Olavallloor-673638.	-do-
21.	-do-	K. P. A. Jaleel, S/o Kunhipari Kanhiraparambil, Vairankode P. O.	-do-
22.	-do-	K.A. Jaleel, S/o Moideenkutty, Kattil House, Puthuparamba, Tanur.	-do-
23.	-do-	Abdul Jabbar, S/o Kochumohammed, Arakka Veetil, Vatanappalli P. O.	-do-
24.	42-Perinthalmanna	Abdul Hameed, Mannengalithodi House, Kunnappalli P. O.	-do-
25.	-do-	Ummer Moulavi, Kolothody House, Kunnappalli P. O.	-do-
26.	52-Coyalmannam (SC)	Sh. C. Prakasan, S/o Chami, Navikkottukalam Veedu, Pallanchathanur.	-do-
27.	127-Varkala	Sh. Kumar R., Roadvila Veedu, Sreenivasapuram	-do-
28.	-do-	Sh. K. Omana, Chavaruvila Veedu, Kallambalam P.O.	-do-
29.	-do-	Sh. Kahar, Rahila Manzil, Kshethram Vila Veedu, Palayamkundu, Varkala.	-do-
30.	-do-	Sh. Sasidharan, Kattuvila, Mundayil, Varkala.	-do-
31.	128-Attingal	Chithrakumari G.S. Akkaravilaveedu, Kunnuvaram, Attingal.	-do-
32.	-do-	Sh. Shibu B, Ambikavilasom, Kaduvayil, Attingal.	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)
33.	128-Atingai	Sh. Mohanachandran, Rakjakimandiram, Mannathimoola, Kadakkavoor.	Accounts not lodged at all
34.	129-Kilimanoor (SC)	Sh. Babu T. Usha Bhavan, Block No. 24, Manjappara, Thalikkuzhi P. O.	-do-
35.	130-Vamanapuram	Sh. Anil Kumar, At-Charuvila Puthen Veedu Vennode, Koonanvenga P. O.	-do-
36.	-do-	Adv. Shine Dinesh, Parameswaravilasom, Kerala	-do-
37.	-do-	Arundhathi, Kurunna Palkavu, Kerala.	-do-
38.	131-Aryanadu	Sh. G. Karthikeyan Varkkala, At-K.R. Bhavan, Palayamkunnu, Varkkala.	-do-
39.	-do-	Karthikeyan, At-Bindhu Bhavan, Manikandesweram, Vattiyoorkavu.	-do-
40.	-do-	B. Muraleedharan, Nair, Valiyavilakathu Veedu, Pothencode.	-do-
41.	-do-	Richard Bennet, Chempakasseril Munda Plavilaveedu, Parasala.	-do-
42.	132-Nedumangad	Sh. Raveendran Nair, 25/337 (1257), Pariyarathuveedu, Arasoparambu, Nedumangad-P. O.	-do-
43.	133-Kazhakkuttam	Sh. Shaiju P. Chirayil Veedu, Mundakkal, Murukkumpuzha.	-do-
44.	134-Thiruvananthapuram North	Sh. Mohanan, Thinavilakathu Veedu, Pathiri Palli, Kudappanakunnu P.O. Trivandrum.	-do-
45.	135-Thiruvananthapuram West	G.T. Sebastian, Pallithara (6), Paruthippally Kuttichal.	-do-
46.	-do-	Sh. Gireesh Kumar V.S., At-T.C. 27/1359, Apsara, Rishimangalam, Vanchiyoar, Thiruvananthapuram.	-do-
47.	136-Thiruvananthapuram East	Sh. Thycaud R. Chandran, T.C. 4/511, Malavika, Kanjirankulam, Kovalam.	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)
48.	136-Thiruvananthapuram East	Sh. Attukal Vikraman, T.C. 22/361/1 (1811), Attukal, Thiruvananthapuram.	Accounts not lodged at all
49.	-do-	Sh. Vijayakumar, Madhavi Mandiram, T.C. 2/1619, Gowreesa Pattom, Thiruvananthapuram.	-do-
50.	137-Nemom	Adv. Robinsen David, Kuzhivila Veedu, Anthiyoor, Balaramapuram P.O. Thiruvananthapuram.	-do-
51.	-do-	Sreekumar, Nithin Nivas, K. V. Nagar, Kurissumthottam, Peyad. P. O., Thiruvananthapuram.	-do-
52.	138-Kovalam	Sh. Firozkhan, Paraikkal House, Pachalloor.	-do-
53.	-do-	Sh. Vandithadom Valsarajan, Puthuval Puthenveedu, Vandithadam Vellayani. P. O.	-do-
54.	-do-	Rosamma T. Valiyavilaveedu, Peringamala, Kalliyoor P. O.	-do-
55.	139-Neyyattinkara	Sh. Mohanakumar, K., Akarathilvila Veedu, Balaramapuram.	-do-
56.	-do-	Sh. K.K. Parameswaran Kutty, Vadakkapanavilakam, Krishna Nagar, Neyyattinkara.	-do-

[No. 76/KL-LA/2007]

By Order,

TAPAS KUMAR, Principal Secy.

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2008

आ. अ. 32.—साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत निर्वाचन आयोग, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में दमण के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित अपनी तारीख 14-03-2008 की अधिसूचना संख्या 429/दमण एवं दीव/2008 (2) को एतद्वारा वापस लेने का निर्देश देता है।

2. परिणामस्वरूप, समय-समय पर क्या संशोधित आयोग की तारीख 11-09-1987 की अधिसूचना संख्या 429/दमण और दीव/1987 (2) लागू रहेगी।

[सं. 429/दमण एवं दीव/2008 (2)]

आदेश से,

बर्नार्ड जॉन, सचिव

New Delhi, the 19th March, 2008

O.N. 32.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13C of the Representation of the People Act, 1950 read with Section 21 of the General clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Election Commission of India hereby directs to withdraw its Notification No. 429/D&D/2008(2) dated 14-03-2008 relating to appointment of Assistant Electoral Registration Officer for Daman in the Union Territory of Daman & Diu.

2. Consequently, the Commission's Notification No. 429/D&D/1987(2) dated 11-09-1987, as amended from time to time, shall remain in force.

[No. 429/D&D/2008(2)]

By Order,

BERNARD JOHN, Secy.

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2008

आ. अ. 33.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उप धारा (1) और (2) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, कर्नाटक राज्य सरकार के परामर्श से तारीख 19 मार्च, 2008 की अपनी अधिसूचना संख्या 508/कर्ना/2008 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ (1) में दर्शायी गई प्रविष्टि "21-बंगलौर" के सामने स्तम्भ (2) में दर्शायी गई प्रविष्टियों "(3) उपायुक्त, (उत्तर) ब्रह्म बंगलौर, महानगर पालिका" तथा "(4) उपायुक्त, (उत्तर) ब्रह्म बंगलौर, महानगर पालिका" क्रमशः : "(3) अपर आयुक्त, दक्षिण जोन, ब्रह्म बंगलौर, महानगर पालिका" तथा "(4) अपर आयुक्त, (उत्तर) महादेवपुर जोन, ब्रह्म बंगलौर, महानगर पालिका" प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी।

[सं. 508/कर्नाटक/2008]

आदेश से,

तपस कुमार, प्रधान सचिव

New Delhi, the 27th March, 2008

O.N. 33.—In pursuance of Sub-sections (1) and (2) of Section 13AA of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission in consultation with the State Government of Karnataka hereby makes the following amendments in its Notification No. 508/KT/2008 dated 19th March, 2008 namely :—

The entries "(3) Deputy Commissioner, (South), Bruhat Bangalore, Mahanagara Palike" and "(4) Deputy Commissioner, (North) Bruhat Bangalore, Mahanagara Palike" appearing in column (2) against the entry "21-Bangalore" appearing in the column (1) of the table appended to the said notification, shall be substituted by the entries "(3) Additional Commissioner, South Zone, Bruhat Bangalore Mahanagara Palike" and "(4) Additional Commissioner, (North) Mahadevpura Zone, Bruhat Bangalore Mahanagara Palike" respectively.

[No. 508/KT/2008]

By Order,

TAPAS KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2008

आ. अ. 34.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि तमिलनाडु विधानसभा के लिए निर्वाचन, 2006 जो नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तंभ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा उल्लिखित अपने निर्वाचन व्ययों का सेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और तद्द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा अपेक्षित रीति से दायित्व करने में असफल रहे;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना देने के बाद भी उक्त असफलता के लिए किसी प्रकार का कोई कारण या न्यायौचित्य प्रस्तुत नहीं किया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा निम्न सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी सदन या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहिता घोषित करता है।

सारणी

क्रम संख्या	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता (सर्वश्री/श्री/श्रीमती)	निर्णय के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	82-धर्मपुरी	कंदासामी एम.के. सुपुत्र कलियप्पन डोर नं. 1/133, वेल्लायानुर वेल्लात्तपट्टी (पो. ऑ.) 636702 धर्मपुरी तालुक, तमिलनाडु	कोई लेखा दाखिल नहीं किया गया।
2.	-वही-	ज्ञानवेलन के. सुपुत्र कृष्णमूर्ति, 33/4 बां क्रॉस, गांधी नगर, धर्मपुरी-I, तमिलनाडु	-वही-
3.	-वही-	बाबू @ बाबू जी डी. सुपुत्र एन.आर. धंरापानी, 3/506 ए, अनगन्नागर पिन्नामनेरी, धर्मपुरी-636703, तमिलनाडु	-वही-
4.	83-पेन्नगरम	बालू आर. सुपुत्र राधीपेट्टिट के. पुडुर, कंडेयानहल्ली (पो. ऑ.) पेन्नगरम तालुक, तमिलनाडु	-वही-
5.	126-कून्नूर (अ.जा.)	रामचन्द्रन पी. सुपुत्र पलानीयांडी, 4/282, कूरिंजी नगर, पञ्चायट्टम, हुवाथलाई पोस्ट, तमिलनाडु	-वही-
6.	127-उटाकमंड	सुब्रमणियम के. 79ए एल एम हाउस रोड, उधंगामंडलम, 643001, तमिलनाडु	-वही-
7.	179-पट्टुक्कोट्टाई	साथीनाथन सीन्ना 699/67ए अथा वेल्लालर स्ट्रीट, थामारनकोट्टाई पट्टुक्कोट्टाई-तालुक, तमिलनाडु	-वही-
8.	181-ओरथाणाडु	रमेश, आर. 220 कुडलक्काडु अम्बलपट्टु (दक्षिण), ओरथाणाडु-तालुक, तमिलनाडु	विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल नहीं किया।
9.	182-थिरुक्कोनम	अर्जुनन मलाई थालोगाईविडुथी, ओरथाणाडु-तालुक, तमिलनाडु	-वही-
10.	-वही-	गोविन्दराज एस. 4-ए/3 अलाक्कुडी रोड, वल्लम, थन्जावुर- तालुक, तमिलनाडु	-वही-
11.	183-थन्जावुर	नागेन्द्रन ए. 901, नागमारा सेन कौलावीची, थन्जावुर-तालुक, तमिलनाडु	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	184-तिरुवैयारु	कुमारवेलु सी. 300, पेरिया कुराई स्ट्रीट, कल्याणपुरम पहला सेधी, तिरुवैयारु-तालुक, तमिलनाडु	विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल नहीं किया।
13.	-वही-	महेन्द्र एन. 5/64, 15, मनदापा स्ट्रीट, तिरुवैयारु, तिरुवैयारु-तालुक, तमिलनाडु	-वही-
14.	-वही-	मथैयाप्पागन ए. मेला धेरु, सानूरपट्टी, सेंगीपट्टी पोस्ट, थन्जावुर-तालुक, तमिलनाडु	लेखा दाखिल नहीं किया गया
15.	-वही-	राजेश के. नाडुपडुगई, कीलायिरुपन्थुरुति, तिरुवैयारु तालुक, तमिलनाडु	-वही-
16.	186-वाल्लिगमन (अ.जा.)	सोन्येल कुमार, ए. 1/63 मेलाथेरु, इलवनारकुडि ग्राम एवं (पो.ऑ.), कोडावासन तालुक, तिरुवारूर जिला, तमिलनाडु	-वही-
17.	-वही-	अर्जुन मलई धेक्कु धेरु, थालिगडिडुति ग्राम एवं (पो.ऑ.), ओरधनाडु तालुक, तन्जावूर जिला, तमिलनाडु	-वही-
18.	187-कुम्बाकोनम्	गोधन्दरमन आर. 71ए, कण्माणि नगर, कुम्बाकोनम्, तन्जावूर जिला, तमिलनाडु	-वही-
19.	188-थिरुविडामरुथुर	नन्था गोपाल जी.ई. 2/11 न्यू स्ट्रीट, गोविन्दापुरम, थिरुविडामरुथुर तालुक, तमिलनाडु	-वही-
20.	-वही-	पंजानिवेल के. 269, कोम्मेतुयेरु पन्डानल्लुर, थिरुविडामरुथुर तालुक, तमिलनाडु	-वही-
21.	-वही-	पुरात्ति वेन्दन एस. 305 पी. कोम्मेतु स्ट्रीट, पन्डानल्लुर, थिरुविडामरुथुर तालुक, तमिलनाडु	-वही-
22.	196-तिरुवाडानाट	सुब्रमण्यन, के. 5/79 उदयानगयल, धेरालापुर पोस्ट, देवकोट्टाई तालुक, शिवगंगा जिला, तमिलनाडु	-वही-
23.	-वही-	सिवा, एस. पेरुकोट्टाई, शन्मुगानाथपुरम पोस्ट, शिवगंगा जिला, तमिलनाडु	-वही-
24.	-वही-	लियाकत अलि, आर. पासिपट्टिनम, पोस्ट, तिरुवाडानाई तालुक, तमिलनाडु	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)
25.	203-मुहुकुलायुर	सिवकुमार एम. सुपुत्र आर. मुनियसामि, 111, मीनाक्षीपुरम, मुहुकुलायुर, तमिलनाडु	लेखा दाखिल नहीं किया गया
26.	203-मुहुकुलायुर	बालमुनियान्धि एम. सुपुत्र मुरुगावेल, 144 बी, चडकुचेरू, को. नेदुन्कुलम ग्राम, मुस्ताकुरुचि पोस्ट, कमुथि तालुक, तमिलनाडु	-वही-
27.	209-राजापालयम (अ.जा.)	अय्यानार. एन. 162, थोप्पुपट्टि स्ट्रीट राजापालयम, तमिलनाडु	-वही-
28.	213-संकरनयानारकोइल (अ.जा.)	करुप्पासामि, ए. सुपुत्र अबुदय्यन, 143, डी, पुलियम्पट्टि श्री गोमतिपुरम, संकरनकोइल, तमिलनाडु	-वही-
29.	213-संकरनयानारकोइल (अ.जा.)	सुब्बुलक्ष्मी के. सुपुत्र कनिसामि, 85, मिडल स्ट्रीट, तुलियम्पट्टि, श्री गोमतिपुरम, पो. ऑ. संकरनकोइल, तमिलनाडु	-वही-
30.	214-वासुदेवनल्लुर (अ.जा.)	आनन्दन डी. सुपुत्र डेनियल, 127, कार्तिक कॉटेज, एस.जी.आई. कॉलोनी, कोर्टल्लम रोड, मेलगारम 627818 वेलकासि तालुक, तमिलनाडु	-वही-
31.	214-वासुदेवनल्लुर (अ.जा.)	सेल्वकणि, सी सुपुत्र चेस्लियाप, 46/2, साउथ स्ट्रीट, दुससरमिपुरम, सिवागीरि तालुक, तमिलनाडु	-वही-
32.	214-वासुदेवनल्लुर (अ.जा.)	बाबू के. सुपुत्र करुप्पासामि, 8/86, अम्बेडकर कॉलोनी स्ट्रीट, विश्वनाथपेरि-627763, सिवागीरि तालुक, तमिलनाडु	-वही-
33.	215-कडायानल्लुर	अरुमुगासामि, एम. सुपुत्र मल्लान्धि, 66/22, कृष्णन् कोइल सन्धि स्ट्रीट, मेलाकडयानल्लुर, तमिलनाडु	-वही-
34.	215-कडायानल्लुर	रन्मुगवेलु, एम. सुपुत्र मुत्थैया थेवर, 22/1, तमिलवीडु, गोमतिपुरम् न्यू कस्ट स्ट्रीट, संकरनकोइल, तमिलनाडु	-वही-
35.	215-कडायानल्लुर	सेन्थिल राज. वी. सुपुत्र वैकुण्ठम, 4-1-74, उरानी स्ट्रीट, सीवनल्लुर, सेनोदुह तालुक, तमिलनाडु	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)
36.	216-टेनकासी	चन्द्रन एस. सुपुत्र बी. शानमुगावेल, 86/2, अम्मान कोविल स्ट्रीट, मेलगारम पोस्ट, टेनकासी-627 818, तमिलनाडु	लेखा दाखिल नही किया गया
37.	216-टेनकासी	श्याम्पान एस.एम. सुपुत्र एस. सम्पानी अचारी, 2/143, विश्वब्रह्म स्ट्रीट, अरियप्पापुरम, मेल्लुर-627 436 टेनकासी तालुक, तमिलनाडु	-वही-
38.	216-टेनकासी	बलासुब्रामनियन के. सुपुत्र एस. कुलन्दावेलु, 24ए, कीड़ा थैरु, चिन्तामणि मेलगारम पोस्ट, टेनकासी तालुक, तमिलनाडु	-वही-
39.	217-अलंगुलम	समीनाथन, पी. सुपुत्र पेचिमुथु थेवर, 4/15 ए, नार्थ स्ट्रीट, कोम्बानकुलम, सन्तानकुलम तालुक, थूथुकुडी जिला, तमिलनाडु	-वही-
40.	218-तिरुनेलवेली	जेयाकुमार ए. सुपुत्र अरुमुगम, ए/81, कल्याणीपुरम कीलाकादायम पंचायत, कादायम अम्बासमुद्रम (टी.के.), तमिलनाडु	-वही-
41.	218-तिरुनेलवेली	नम्बी राजन एस. सुपुत्र एन. सुन्दरम, 94/133, नम्बी सामी कोइल स्ट्रीट, सेड्युगानालुर, सिरिवाइकुन्दम (टी.के.) थूथुकोडी जिला, तमिलनाडु	-वही-
42.	218-तिरुनेलवेली	इन्बाराज ई. सुपुत्र ए. इस्वरन, 20 कीला, ओमानास्तुर मेला, थिडियूर, पलायम कोटाई (टी.के.), तमिलनाडु	-वही-
43.	218-तिरुनेलवेली	गणेशन एस. सुपुत्र सुदालाडमुथु 5 सी, उक्किरन नगर, नारानाम्मल पुरम, तिरुनेलवेली तालुक, तमिलनाडु	-वही-
44.	219-पालयमकोटाई	एडवर्ड राज एम. 32, आरोकियनीपुरम, महाराजा नगर, (पो. आ.), तिरुनेलवेली-11, तमिलनाडु	-वही-
45.	219-पालयमकोटाई	पेचिमुथु @ अरुणचलसामी 6, करनाल बंगला स्ट्रीट, रामनाथपुरम-623501, तमिलनाडु	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)
46.	219-पालयमकोट्टाई	सुदालाई मनि ई 72, ए डेनियल थैमस स्ट्रीट, पालायमकोट्टाई, तमिलनाडु	लेखा दाखिल नहीं किया गया
47.	219-पालयमकोट्टाई	कन्नान, ए 3सी, पिलैयार कोल स्ट्रीट, अनैयर कुलाय, पेरुमपालमुरम, (पो.आ.)	-वही-
48.	219-पालयमकोट्टाई	गोमाथिनायगाम पी. 7 सी, सालूगापुरम, कीलाथेरु, गांधी नगर, पो. आ. तिरुनेलवेली-627008, तमिलनाडु	-वही-
49.	219-पालयमकोट्टाई	सुबशा सुन्दर के. 29, साठय मुथारम्मान कोइल स्ट्रीट, पालायमकोट्टाई, तमिलनाडु	-वही-
50.	219-पालयमकोट्टाई	थंगावेल पी. 92, सरिजन कॉलोनी, नोचिकुलम-महाराजनगर, (वाया) तिरुनेलवेली-11, तमिलनाडु	-वही-
51.	219-पालयमकोट्टाई	जेशाकुमार के. 6/10 फास्ट स्ट्रीट, राजेन्द्रन नगर, पल्लायमकोट्टाई, तमिलनाडु	-वही-
52.	220-चरणमहादेवी	अरुमुगानयनार पी. 2/240, कंगाननकुलम, पिरुविरुथानपुल्ली, पोस्ट, अम्बासमुद्रम तालुक, तमिलनाडु	-वही-
53.	220-चरणमहादेवी	उदयकुमार एस. 5/47/45 उदयमारथण्डानुरम- आरियानाकिपुरम अम्बा समुद्रम तालुक, तमिलनाडु	-वही-
54.	220-चरणमहादेवी	परमासिवान ए. 11, ईस्ट स्ट्रीट, सुक्राथनियापुरम, गोपालासमुद्रम अम्बा समुद्रम तालुक, तमिलनाडु	-वही-
55.	221-अम्बासमुद्रम	गणेशन ई. सुपुत्र एसावकी, 2ए/कीला कॉलोनी कोविकुलम, अम्बादेसम पोस्ट, अम्बासमुद्रम तालुक, तमिलनाडु	-वही-
56.	221-अम्बासमुद्रम	वेंकटसालय एम. सुपुत्र सुधुनण्डी, 1/11, पैजलईमादाम स्ट्रीट, जामिनसिगापट्टी, अम्बासमुद्रम तालुक, तमिलनाडु	-वही-
57.	221-अम्बासमुद्रम	वेलमुरुगन एस. सुपुत्र सुब्बैया, 12, सेनईयार स्ट्रीट, अम्बासमुद्रम तालुक, तमिलनाडु	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)
58.	222-नानगुनेरी	पाण्डेय यू., सुपुत्र डसिकट्टन, 8/37, तमिल इल्लम, नेल्लाई अप्पापुरम, नानगुनेरी तालुक, तमिलनाडु	कोई लेखा दाखिल नहीं किया गया
59.	222-नानगुनेरी	आनंद कुमार एस. सुपुत्र शंकरन, 17/8, नेल्लाई नवनार स्ट्रीट, पायलमकोट्टई, तिरुनेलवेली तमिलनाडु	-वही-
60.	222-नानगुनेरी	सत्य नारायणन एस. सुपुत्र सुब्बाया कोनार, 2/6 मिडिल स्ट्रीट, मुन्नइनजीपट्टी बाजार, मुन्नइनजीपट्टी, नानगुनेरी तालुक, तमिलनाडु	-वही-
61.	222-नानगुनेरी	चौडकेन्द्रम के. सुपुत्र कैलासा पिल्लई, मेन रोड, इलानकुलम पोस्ट, पारम्पाडी, (छाया) नानगुनेरी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	-वही-
62.	223-राधापुरम	पर्वथी ए. पत्नी पिच्चैया, 71/93ए, कस्या कीला स्ट्रीट, राधापुरम मेन रोड, इरुक्कानथुरई-627106, राधापुरम तालुक, तमिलनाडु	लेखा दाखिल नहीं किया गया।
63.	223-राधापुरम	सेल्वाकुमार ए. सुपुत्र, अरुणावलम, 141, चिदम्बरम्पुरम दक्षिण स्ट्रीट-27114, राधापुरम तालुक, तमिलनाडु	-वही-
64.	223-राधापुरम	सेल्वाराम ए. सुपुत्र, अधिनारायणपेरुल्ल नाडार, 14/252, वेडा कोइल स्ट्रीट, लम्बाई कुदियिरुप्पू-627105, कवल्लिकिनाल, राधापुरम तालुक, तमिलनाडु	-वही-
65.	223-राधापुरम	सेल्वाराम पी. सुपुत्र पेरियासामी डी नं. 43/6 बी, नेताजी नगर, राधापुरम-627111, तमिलनाडु	-वही-
66.	223-राधापुरम	सेल्वाराम एम. सुपुत्र मायामुथु 60, विनायगर राइस मिल स्ट्रीट, पालासुर कावल्लिकारु पो.ओं-627105, राधापुरम तालुक, तमिलनाडु	-वही-
67.	223-राधापुरम	थंगसामी पी. सुपुत्र पोनैया नाडार 75 कस्या मुथी कोइल स्ट्रीट, चेदिकुलम पो.ओं-627124 राधापुरम तालुक, तमिलनाडु	-वही-

[सं. 76/तमिलनाडु- वि.स./2007]

आदेश से,

तपस कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th March, 2008

O.N. 34.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the Tamil Nadu Legislative Assembly, 2006 held from the Constituency specified in column (2) against her/his name has failed to lodge an account of his/her election expenses as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder,

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order :—

TABLE

Sl. No.	Number & Name of Assembly Constituency	Name & Address of the Contesting candidate (S/Shri/Smt.)	Reason for disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	82-Dharmapuri	Kandasamy M.K. S/o Kaliappan Dr. No. 1/133, Molaganoor Vellalapatti, (PO)-636702 Dharmapuri Taluk, Tamil Nadu.	Accounts not lodged at all.
2.	82-Dharmapuri	Gnanavelavan. K. S/o Krishnamoorthy, 33/4th Cross, Gandhi Nagar, Dharmapuri-1, Tamil Nadu.	-do-
3.	82-Dharmapuri	Babu @ Babuji. D. S/o N.R. Dhandapani, 3/506A Rangamagar Pidamaneri, Dharmapuri-636703, Tamil Nadu.	-do-
4.	83-Pennagaram	Balu. R. S/o. Rajichetti, K. Pudur, Kendeyanahalli (PO), Pennagaram (TK.), Tamil Nadu.	-do-
5.	126-Coonoor (SC)	Ramachandran. P. S/o. Palaniyandi 4/282, Kurinji Nagar, Pazhathottam, Hubathalai Post, Tamil Nadu.	-do-
6.	127-Ootacamund	Subramanian. K. 79 ALMS House Road, Udhagamandalam- 643001, Tamil Nadu.	-do-
7.	179-Pattukkottai	Saminathan. Cinna 699/67A Va Vellalar Street, Thamarankottai, Pattukkottai-Taluk, Tamil Nadu.	-do-
8.	181-Orathanadu	Ramesh, R. 220 Kudlickadu Ambalapattu (South) Orathanadu (TK), Tamil Nadu.	Accounts not in the manner required by the law
9.	182-Thiruvonam	Arjunan. Malai Thaligaividuthi, Orathanadu Taluk, Tamil Nadu.	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	182-Thiruvonam	Govindaraj. S. 4-A/3 Alakkudi Road, Vallam, Thanjavur Taluk, Tamil Nadu.	Accounts not lodged at all.
11.	183-Thanjavur	Nagendran, A. 901, Nagamara Lane, Keelaveethi, Thanjavur, Tamil Nadu.	-do-
12.	184-Thiruvaiyaru	Kumaravelu. C. 300, Peria Koorai Street, Kalyanapuram, 1st Sethi, Thiruvaiyaru Taluk, Tamil Nadu.	Accounts not in the manner required by the law
13.	184-Thiruvaiyaru	Mahendran. N. 5/64, 15, Mandapa Street, Thiruvaiyaru, Thiruvaiyaru Taluk, Tamil Nadu.	Accounts not in the manner required by the law
14.	184-Thiruvaiyaru	Mathiazhagan. A. Mela Theru, Sanoorapatti, Sengipatti Post, Thanjavur Taluk, Tamil Nadu.	Accounts not lodged at all.
15.	184-Thiruvaiyaru	Rajesh K. Nadupadugai, Keelathirupanthuruthi, Thiruvaiyaru Taluk, Tamil Nadu.	-do-
16.	186-Valangaiman (SC)	Senthil Kumar, A. 1/63 Melathena, Ilavangarkudi Village & (PO), Kodavasal (TK), Thiruvannur (Dt.) Tamil Nadu.	-do-
17.	186-Valangaiman (SC)	Arjunan, Malai Therku Theru, Thaligaividuthi Via & P.O. Orathanadu (TK), Thanjavur (DT), Tamil Nadu.	-do-
18.	187-Kumbakonam	Godhandaraman. R. 71A, Karmani Nagar Kumbakonam, Thanjavur District, Tamil Nadu.	-do-
19.	188-Thiruvidaimaruthur	Nantha Gopal G.E. 2/11, New Street, Govindapuram, Thiruvidaimaruthur, Tamil Nadu.	-do-
20.	188-Thiruvidaimaruthur	Pazhanivel. K. 269, Kommettutheru Pandanallur, Thiruvidaimaruthur Taluk, Tamil Nadu.	-do-
21.	188-Thiruvidaimaruthur	Puratchi Vendhan. S. 305B, Kommettu Street, Pandanallur, Thiruvidaimaruthur Taluk, Tamil Nadu.	-do-
22.	196-Tiruvadanai	Subramanian, K. 5/79, Udaiyanavayal, Theralapur Post, Devakottai Taluk, Sivagangai District, Tamil Nadu.	-do-
23.	196-Tiruvadanai	Siva, S. Peratukottai, Shanmuganathapuram (Post), Sivagangai District, Tamil Nadu.	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)
24.	196-Tiruvadanai	Liakath Ali, R. Pasipattinam (Post), Tiruvadanai Taluk, Tamil Nadu.	Accounts not lodged at all.
25.	203-Mudukulathur	Sivakumar, M. S/o. R. Muniyasamy, 111, Meenatchipuram, Mudukulathur, Tamil Nadu.	-do-
26.	203-Mudukulathu	Balamuniyandi, M. S/o. Murugavel, 144-B, Vadaku Thera, K. Nedunkulam Village, Mustakuruchi Post, Kannuthi Taluk, Tamil Nadu.	-do-
27.	209-Rajapalayam (SC)	Ayyanar, N. 162, Thoppupatti Street, Rajapalayam, Tamil Nadu.	-do-
28.	213-Sankaranayanarkoil (SC)	Karuppasamy, A. S/o. Avudayappan, 143-D, Puliyampatti Sri Gomathipuram Sankarankoil, Tamil Nadu.	-do-
29.	213-Sankaranayanarkoil (SC)	Subbulakshmi, K. S/o. Kannisamy, 85, Middle Street, Puliyampatti, Sri Gomathipuram P.O. Sankarankoil, Tamil Nadu.	-do-
30.	214-Vasudevanallur (SC)	Anandan, D. S/o. Daniel, Karthik Cottage, SBI Colony, Courtallam Road, Melagaram-627818, Tenkasi Taluk, Tamil Nadu.	-do-
31.	214-Vasudevanallur (SC)	Selvakani, C. S/o. Chelliah, 46/2, South Street, Duraichamiyapuram, Sivagiri Taluk, Tamil Nadu.	-do-
32.	214-Vasudevanallur (SC)	Babu, K. S/o. Karuppasamy, 8/86, Ambedkar Colony Street, Viswanathaperi-627763, Sivagiri Taluk, Tamil Nadu.	-do-
33.	215-Kadayanallur	Arumugasamy, M. S/o. Malaiyandi 66/22, Krishnan Koil Sannathi Street, Melakadayanallur, Tamil Nadu.	-do-
34.	215-Kadayanallur	Shunmugavelu, M. S/o. Muthiah Thevar 22/1, Tamil Veedu, Gomathipuram, New 1st Street, Sankarankoil, Tamil Nadu.	-do-
35.	215-Kadayanallur	Senthil Raj, V. S/o. Vaikundam 4-1-74, Urani Street, Seevanallur, Sengottai Taluk, Tamil Nadu.	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)
36.	216-Tenkasi	Chandran, S. S/o. V. Shanmugavel, 86/2, Amman Kovil Street, Melagaram Post, Tenkasi-627818, Tamil Nadu.	Accounts not lodged at all. -do-
37.	216-Tenkasi	Thangappan, S.S. S/o. S. Sappani Achari, 2/143, Viswabrahma Street, Ariyappapuram, Mettur-627436, Tenkasi Taluk, Tamil Nadu.	-do-
38.	216-Tenkasi	Balasubramanian, K. S/o. S. Kulandaivelu, 24-A, Keezha Theru, Chinthamani, Melagaram Post, Tenkasi Taluk, Tamil Nadu.	-do-
39.	217-Alangulam	Samynathan, P. S/o. Pechimuthu Thevar, 4/15A, North Street, Kombankulam, Sattankulam Taluk, Thoothukudi District, Tamil Nadu.	-do-
40.	218-Tirunelveli	Jeyakumar, A. S/o. Arumugam, A/81 Kalyanipuram, Keelakadayam, Panchayat Kadayam, Ambasamudram (T.K.), Tamil Nadu.	-do-
41.	218-Tirunelveli	Nambi Rajan, S. S/o. N. Sundaram 94/133, Nambi Samy Koil St., Seithunganallur, Sirivaikundam (T.K.), Thoothukodi Dist, Tamil Nadu.	-do-
42.	218-Tirunelveli	Inbaraj, E., S/o. A. Easwaran 20, Keela Omanallur Mela Thidiyoor, Palayamkottai (T.K.), Tamil Nadu.	-do-
43.	218-Tirunelveli	Ganesan, S. S/o. Sundalaimuthu, 5C, Ukkiran Nagar, Naranammal Puram, Tirunelveli (T.K.), Tamil Nadu.	-do-
44.	219-Palayamkottai	Edward Raj M., 32, Arockiyathapuram, Maharajanagar (P.O.), Tirunelveli-11, Tamil Nadu.	-do-
45.	219-Palayamkottai	Pechimuthu @ Arunachalasamy, 6, Karnal Bungalow Street, Ramanathapuram-623 501, Tamil Nadu.	-do-
46.	219-Palayamkottai	Sudalai Mani E. 72-A, Daniel Thomas St., Palayamkottai, Tamil Nadu.	-do-
47.	219-Palayamkottai	Kannan A. 3/C, Pillaiyar Koil Street, Anaiyar Kulam, Perunallpuram (P.O.), Tamil Nadu.	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)
48.	219-Palayamkottai	Gomathinayagam. P. 7C, Lahugapuram, Keelatheru, Gandhinagar P.O. Tirumelveli-627008, Tamil Nadu.	Accounts not lodged at all.
49.	219-Palayamkottai	Subash Sundar K. 29, South Mutharamman Koil St., Palayamkottai, Tamil Nadu.	-do-
50.	219-Palayamkottai	Thangavel. P., 92, Harijan Colony, Nochikulam, Maharajanagar (Via) Tirumelveli-11, Tamil Nadu.	-do-
51.	219-Palayamkottai	Jebakumar. K., 6/10, First Street, Rajendran Nagar, Palayamkottai, Tamil Nadu.	-do-
52.	220-Cheranmahadevi	Arumuganainar, P. 2/240, Kanganankulam, Thiruviruthanpalli Post, Ambasamudram Taluk, Tamil Nadu.	-do-
53.	220-Cheranmahadevi	Udayakumar, S. 5/47/45 Udayamarthandapuram Vadaku-Ariyanayakipuram, Ambasamudram Taluk, Tamil Nadu.	-do-
54.	220-Cheranmahadevi	Paramasivan, A. 11, East Street, Subramaniapuram, Gopalsamudram, Ambasamudram Taluk, Tamil Nadu.	-do-
55.	221-Ambasamudram	Ganesan. E. S/o. Esakki, 2A, Keelacolony, Kovilkulam, Brammadesam (Post), Ambasamudram Taluk, Tamil Nadu.	-do-
56.	221-Ambasamudram	Venkatasalam. M. S/o. Muthupandi, 1/11 Pajanaimadam Street, Jaminsingampatti, Ambasamudram (Taluk,) Tamil Nadu.	-do-
57.	221-Ambasamudram	Velmurugan. S. S/o. Subbiah, 12, Senaiyar Street, Ambasamudram, Tamil Nadu.	-do-
58.	222-Nanguneri	Pandy, U., S/o. Usikattan, 8/37, Tamil Ilam, Nellaiappapuram, Nanguneri Taluk, Tamil Nadu.	-do-
59.	222-Nanguneri	Ananda Kumar, S. S/o. Sankaran, 17/8, Nellai Nayanar Street, Palayamkottai, Tirumelveli, Tamil Nadu.	-do-
60.	222-Nanguneri	Sathya Narayanan, S. S/o. Subbiah Konar, 2/6, Middle Street, Munainjipatti Bazaar, Munainjipatti, Nanguneri Taluk, Tamil Nadu.	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)
61.	222-Nanguneri	Youkendran, K. S/o. Kailasa Pillai, Main Road, Ilankulam Post, Parappadi (Via) Nanguneri Taluk, Tirunelveli Dist., Tamil Nadu.	Accounts not lodged at all.
62.	223-Radhapuram	Parvathi A. W/o. Pichaiiah, 71/93-A, Kaspas Keela Street, Radhapuram Main Road, Irukkanthurai-627106, Radhapuram Taluk, Tamil Nadu.	-do-
63.	223-Radhapuram	Selvakumar, A. S/o. Annachalam 141, Chidambapuram South, Street-627114, Radhapuram Taluk, Tamil Nadu.	-do-
64.	223-Radhapuram	Selvaraj, A. S/o. Adhinayanaperumal Nadar, 14/252, Veda Koil Street, Labbai Kudiyiruppu-627105, Kavalkinaru, Radhapuram Taluk, Tamil Nadu.	-do-
65.	223-Radhapuram	Selvaraj, P. S/o. Periyasamy, D. No. 43/6B, Netaji Nagar, Radhapuram-627111, Tamil Nadu.	-do-
66.	223-Radhapuram	Selvaraj, M. S/o. Mayamuthu, 60, Vinayagar Rice Mill Street, Palavoor, Kavalkinaru P.O.-627105, Radhapuram Taluk, Tamil Nadu.	-do-
67.	223-Radhapuram	Thangasamy, P. S/o. Ponniah Nadar, 75, Kaspas Murthy Koil St., Chettikulam P.O.-627124 Radhapuram Taluk, Tamil Nadu.	-do-

[No. 76/TN-LA/2007]

By Order,

TAPAS KUMAR, Principal Secy.